



26th May, 2022

Ref. No.: 102239/S/O/L-1/2022-23

The Manager,
Listing/Market Operation,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

The Manager,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

NSE Code – ASAHIINDIA

BSE Code – 515030

**Sub: Publication of Audited Financial Results for the fourth quarter
and year ended 31st March, 2022**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended 31st March, 2022, as published in “Business Standard”, all editions and “Veer Arjun”, New Delhi on 26th May, 2022.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,
For Asahi India Glass Ltd.,

Gopal Ganatra
Executive Director
General Counsel & Company Secretary
Membership No.: F7090

Encl.: As above

Asahi India Glass Ltd.
Corporate Office: Unit No. 301-308,
1101-1104, 3rd and 11th Floor, Tower-D,
Global Business Park, M. G. Road,
Gurugram- 122002 Haryana (India)
Tel.: +91 124 4062212-19
Fax: +91 124 4062244, 4062288
website: www.aisglass.com
Corporate Identity Number: L26102DL1984PLC019542

Registered Office: Unit No. 203 to 208, Tribhuvan Complex,
Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi- 110065



emami paper mills limited

CIN - L21019WB1981PLC034161

Registered office : 687, Anandapur, 1st Floor, E.M Bypass, Kolkata - 700107
Phone No. 033 6613 6264, Fax No. 033 6613 6900, Website: www.emamipaper.in, Email: investor.relations@emamipaper.com

Statement of audited financial results for the quarter and year ended 31st March 2022

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
Total Income from operations (Net)	568.81	518.52	411.38	1,957.71	1,216.27
Earning before Interest, Depreciation and Tax (EBITDA)	100.83	72.28	66.53	322.08	181.46
Net Profit/(loss) for the period (before exceptional items and tax)	54.04	30.85	29.81	159.33	30.16
Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	48.10	30.85	102.27	153.39	102.62
Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items and tax)	36.68	23.22	47.28	114.80	51.06
Total Comprehensive Income for the period (after tax)	28.25	21.41	49.66	113.63	77.02
Paid up Equity Share Capital (Face value ₹ 2/- each)	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10
Convertible preference shares				243.52	243.52
Other equity as on Balance Sheet date				397.40	283.84
Earnings Per share (of ₹ 2/- each)					
Basic (in ₹/ share)	5.86	3.64	7.81	18.17	8.43
Diluted (in ₹/ share)	4.62	2.92	7.78	14.45	8.40

Note:
The above is the extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter/Year end Financial Results are available on the website of BSE at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India at www.nseindia.com and on the website of the Company at www.emamipaper.in

For and on behalf of the Board

Vivek Chawla

Whole-time Director and CEO
DIN : 02696336Dated : 25th May, 2022
Place : Kolkata

Bank of Baroda
www.bankofbaroda.in

TENDER NOTICE

Bank of Baroda, Facilities Management Dept., Head Office, Vadodara invites sealed tender in two bid system from reputed contractors for Civil, Electrical, Plumbing & Allied Works at Bank's Residential Flats, BOB House, O P Road, Vadodara, Gujarat.

"Addendum", if any, shall be issued on Bank's Website under tenders selection i.e. on www.bankofbaroda.in. Bidder should refer the same before final submission of the proposal.

Last date of submission of tender: 15/06/2022 up to 1500 hrs

For further details please visit our website www.bankofbaroda.in/tenders/corporate-office

Asstt. General Manager (FM & Security)
H.O. Vadodara

Place: Vadodara
Date: 26.05.2022



PRESTIGE PROJECTS PRIVATE LIMITED

CIN: U45201KA2008PTC046784

Regd. Office: Prestige Falcon Tower, No.19, Brunton Road, Bangalore-560 025
Email: investors@prestigeconstructions.com Website: www.prestigeconstructions.com

Extracts of Financial Results of Prestige Projects Private Limited for the quarter and year ended March 31, 2022:

Sl. No.	Particulars	(Rs. In Million)		
		Quarter Ended	Year Ended	Year Ended
		31.03.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (audited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations	108.30	110.60	0.13
2	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(92.93)	(136.01)	(7.40)
3	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(69.74)	(101.78)	(7.40)
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(69.22)	(101.26)	(7.40)
5	Equity Share Capital	56.60	56.60	33.96
6	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) –			
	Basic :	(14.90)	(175.66)	(2.18)
	Diluted:	(14.90)	(175.66)	(2.18)

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022 are available on the Company's website www.prestigeconstructions.com and can also be viewed on the stock exchange website www.nseindia.com

2. The results have been prepared in accordance with IND AS prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013.

By order of the Board of
Prestige Projects Private LimitedPlace: Bengaluru
Date: May 25, 2022Sd/-
Sameera Noaman
Director
DIN: 01191723

#BSBankingShow



PRESENTS

THE Business Standard BANKING SHOW

Thursdays | 11am

WATCH IN TODAY'S EPISODE

Banking Wrap



Cheque-bounce cases, on-tap bank licence, ARCIL divestment, and more

Banker's View



Exclusive interview with Bandhan Bank MD & CEO C S Ghosh

Banking for You



Cardless ATM cash withdrawals: What they mean for you and the banks

Take Two



Tamal Bandyopadhyay dissects the HDFC-HDFC Bank merger

Visit mybs.in/BankingShow or


scan this code to watch

Banking Unlocked

bsindia

bsindia

business-standard.com



ASAHI INDIA GLASS LIMITED

CIN: L26102DL1984PLC019542

Registered Office: Unit No. 203-208, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi - 110 065. Phone: (011) 49454900

Corporate Office: 3rd Floor, Tower D, Global Business Park, Mehrauli - Gurgaon Road, Gurugram - 122 002 (Haryana). Phone: (0124) 4062212-19, Fax: (0124) 4062244/88
Email: investorrelations@aisglass.com, Website: www.aisglass.com

AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

S. No.	Particulars	(₹ Lakhs)			
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended
		31.03.2022 Audited	31.03.2022 Audited	31.03.2021 Audited	31.03.2021 Audited
1	Total Income from Operations	95,162	3,18,973	82,986	2,45,748
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	18,628	51,071	13,241	20,486
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	18,628	51,071	13,241	20,486
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	12,756	34,276	8,419	13,066
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	12,863	34,555	8,785	13,512
6	Equity Share Capital	2,431	2,431	2,431	2,431
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		1,41,546		
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)				
	(a) Basic	5.27	14.18	3.48	5.47
	(b) Diluted	5.27	14.18	3.48	5.47

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

S. No.	Particulars	(₹ Lakhs)			
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended
		31.03.2022 Audited	31.03.2022 Audited	31.03.2021 Audited	31.03.2021 Audited
1	Total Income from Operations	93,475	3,13,374	81,890	2,42,041
2	Profit before tax	18,864	51,899	13,410	21,798
3	Profit after tax	12,896	34,762	8,473	13,884

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com & www.nseindia.com respectively and on company's website at www.aisglass.com.

2. The above financial results have been reviewed by the Audit & Risk Management Committee on 24th May, 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 25th May, 2022.

3. The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016, recognition and measurement principles in Ind AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

4. The Company has Considered the possible effects that may result from the COVID-19 pandemic on the carrying amount of Property, Plant & Equipments, Investments, Receivables and other current assets. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the company as at the date of approval of these Financial Results has used internal and external sources on the expected future performance of the company and does not anticipate any major challenge in meeting its financial obligations. The impact of COVID-19 on the Company's Financial Results may differ from that estimated as at the date of approval of these Financial Results.

5. The Board of Directors have recommended a dividend of ₹ 2/- per equity share of face value of ₹ 1/- each for financial year 2021-22. The payment is subject to approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting of the Company.

For and on behalf of Board of Directors

Place: Gurugram
Date : 25th May, 2022Sanjay Labroo
Managing Director & C.E.O.

